



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 आश्विन 1944 (श10)  
(सं0 पटना 824) पटना, मंगलवार, 11 अक्टूबर 2022

---

सं0 22/एम0-04/2011-18085/सा0प्र0  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

10 अक्टूबर 2022

विषय:— माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों/कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित कतिपय न्यायादेशों के तहत सरकारी विभागों/कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश [(2006) 4 SSC-1] के आलोक में वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच कर उनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मुख्य सचिव, बिहार को सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया गया था।

2. उक्त न्यायादेश के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार के आदेश से विभिन्न संकल्पों के द्वारा समय-समय पर प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जाता रहा है। सम्प्रति संकल्प ज्ञापांक-22/एम0-04/2011 सा0प्र0वि0-3974 दिनांक 25.03.2019 के तहत गठित समिति अस्तित्व में है। उक्त संकल्प के तहत गठित समिति के एक सदस्य के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा अपनी

सहमति दी गयी है। तदनुसार संकल्प ज्ञापक-3974 दिनांक-25.03.2019 के तहत गठित समिति को निम्नरूपेण पुनर्गठित करने का निर्णय लिया जाता है :-

- |  |         |
|--|---------|
| 1. डॉ० बी० राजेन्दर<br>प्रधान सचिव,<br>सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। | अध्यक्ष |
| 2. श्री संजय कुमार अग्रवाल,<br>सचिव,<br>जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।      | सदस्य   |
| 3. श्री लोकेश कुमार सिंह,<br>सचिव (संसाधन)<br>वित्त विभाग, बिहार, पटना।    | सदस्य   |

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार,  
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 824-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>